



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 माघ 1936 (श0)
(सं0 पटना 222) पटना, सोमवार, 2 फरवरी 2015

सं0 5 / सह.फ.बी.-160 / 2014—4808
सहकारिता विभाग

संकल्प
24 दिसम्बर 2014

विषय:—रब्बी 2014-15 मौसम में राज्य के सभी जिलों में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) लागू करने की स्वीकृति।
प्राकृतिक आपदाओं यथा—बाढ़, सुखाड़, तुषारापात आदि कारणों से फसलों की क्षति होने की अवस्था में बीमित कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान कर अगली फसल उगाने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सहकारिता विभाग के संकल्प संख्या—1261 दिनांक 08.04.2000 द्वारा खरीफ 2000 से ही भारत सरकार की फसल बीमा योजना यथा—राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) राज्य में लागू की गई है।

2. कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार के पत्र संख्या— 13015 / 02 / 2012—Credit II दिनांक 21.02.2014 द्वारा खरीफ 2014 मौसम से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) को रोक दिया गया था। पुनः कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार के पत्र संख्या—13011 / 04 / 2004—Credit II दिनांक 10.07.2014 द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2014-15 के लिए प्रशासनिक स्वीकृति संसूचित की गई है।

3. अतः राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बिहार राज्य के सभी जिलों में रब्बी 2014-15 मौसम के लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) लागू की जाए।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
राजेश गुप्ता,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 222-571+20-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>